


अध्याय 14

ऊर्जा के स्रोत



बहुविकल्पीय प्रश्न

- 1.** निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है?
 - (a) लकड़ी
 - (b) सूर्य
 - (c) जीवाशमी ईंधन
 - (d) पवन

- 2.** अम्लीय वर्षा होने का कारण यह है कि
 - (a) सूर्य वायुमंडल की ऊपरी परतों को तप्त करना आरंभ करता है
 - (b) जीवाशमी ईंधनों के जलने पर वायुमंडल में कार्बन, नाइट्रोजन व सल्फर के ऑक्साइड मुक्त होते हैं
 - (c) बादलों में घर्षण के कारण विद्युत आवेश उत्पन्न होते हैं
 - (d) पृथ्वी के वायुमंडल में अम्ल होते हैं

- 3.** तापीय विद्युत संयंत्र में उपयोग होने वाला ईंधन है:
 - (a) जल
 - (b) यूरेनियम
 - (c) जैवमात्रा
 - (d) जीवाशमी ईंधन

- 4.** जल विद्युत संयंत्र में
 - (a) संचित जल की स्थितिज ऊर्जा विद्युत में रूपांतरित हो जाती है
 - (b) संचित जल की गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है
 - (c) जल से विद्युत निष्कर्ष की जाती है
 - (d) विद्युत प्राप्त करने के लिए जल को भाप में रूपांतरित किया जाता है

- 5.** ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन सा है?
- जल
 - सूर्य
 - यूरेनियम
 - जीवाशमी ईधन
- 6.** ऊर्जा के निम्नलिखित रूपों में से किसकी साज-सज्जा और उपयोग की प्रक्रिया में सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण होता है?
- नाभिकीय ऊर्जा
 - तापीय ऊर्जा
 - सौर ऊर्जा
 - भूतापीय ऊर्जा
- 7.** महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण है
- महासागर में तरंगों द्वारा सचित ऊर्जा
 - महासागर में विभिन्न स्तरों पर ताप में अंतर
 - महासागर में विभिन्न स्तरों पर दाब में अंतर
 - महासागर में उत्पन्न ज्वार
- 8.** नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करने में प्रमुख समस्या यह है कि:
- नाभिक को विखंडित कैसे करें
 - अभिक्रिया को सतत कैसे बनाएँ
 - उपयोग के पश्चात ईधन का सुरक्षित निपटारा कैसे करें
 - नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कैसे करें
- 9.** सौर कुकर का कौन-सा भाग पौधघर प्रभाव के लिए उत्तरदायी है?
- बॉक्स के भीतर काली परत
 - दर्पण
 - काँच की शीट
 - सौर कुकर का बाहरी आवरण
- 10.** बायोगैस का मुख्य अवयव है
- मेथैन
 - कार्बन डाइऑक्साइड
 - हाइड्रोजन
 - हाइड्रोजन सल्फाइड
- 11.** पवन चक्की में उत्पन्न ऊर्जा
- वर्षा ऋतु में अधिक होती है क्योंकि नम वायु होने पर पंखुड़ियों से वायु का अधिक द्रव्यमान टकराता है
 - मीनार (टावर) की ऊँचाई पर निर्भर करती है
 - पवन के वेग पर निर्भर करती है
 - मीनार के निकट ऊँचे वृक्ष लगाकर बढ़ाई जा सकती है

- 12.** सही प्रकथन चुनिए :
- सूर्य को ऊर्जा के अक्षय (असीम) स्रोत के रूप में लिया जा सकता है
 - पृथ्वी के भीतर जीवाशमी ईंधन के अनंत (असीमित) भंडार हैं
 - जल तथा पवन शक्ति संयंत्र प्रदूषण न फैलाने वाले ऊर्जा स्रोत हैं
 - नाभिकीय शक्ति संयंत्रों के अपशिष्टों का निपटारा आसानी से किया जा सकता है
- 13.** किसी जल विद्युत शक्ति संयंत्र में अधिक विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकती है यदि जल अधिक ऊँचाई से गिराया जाए, क्योंकि:
- इससे जल के ताप में वृद्धि हो जाती है
 - विद्युत उत्पन्न करने के लिए अधिक स्थितिज ऊर्जा उपलब्ध हो जाती है
 - ऊँचाई में वृद्धि होने पर जल में विद्युत की मात्रा बढ़ती जाती है
 - जल के अधिक अणु आयनों में वियोजित होते हैं
- 14.** पवन शक्ति के संदर्भ में असत्य प्रकथन का चयन कीजिए।
- खुले स्थानों पर न्यूनतम पवन ऊर्जा की अपेक्षा की जाती है
 - अधिक ऊँचाई वाले स्थानों पर पवनों की स्थितिज ऊर्जा पवन शक्ति का स्रोत होती है
 - पवन चक्की की पंखुड़ियों से टकराने वाली पवनों पवन चक्की में धूर्णन उत्पन्न करती है, इस प्रकार प्राप्त धूर्णन का उपयोग किया जा सकता है
 - पवन चक्की की पंखुड़ियों के धूर्णन की ऊर्जा के उपयोग की एक संभावित विधि विद्युत जनित्र के टरबाइन को घुमाना है
- 15.** निम्नलिखित में असत्य प्रकथन का चयन कीजिए :
- हमें अधिक वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि पर्यावरण शुद्ध हो तथा जैवमात्रा ईंधन भी प्राप्त हो
 - जब फसलों, वनस्पति के अपशिष्टों आदि का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटन होता है तो जैवगैस उत्पन्न होती है
 - जैवगैस का प्रमुख अवयव एथेन है और यह अत्यधिक धुँआ उत्पन्न करती है तथा अत्यधिक राख भी शेष बच जाती है
 - जैवमात्रा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है

लघुउत्तरीय प्रश्न

- 16.** हमें ऊर्जा के गैर-परंपरागत स्रोतों के दोहन की आवश्यकता क्यों है? दो प्रमुख कारण लिखिए।
- 17.** महासागरों से ऊर्जा प्राप्त करने की दो विधियाँ लिखिए।
- 18.** जीवाशमी ईंधन को जलाने पर उत्पन्न पर्यावरणीय प्रदूषण को निम्नतम करने के दो उपाय सुझाइए।
- 19.** सौर कुकर में समतल दर्पण तथा काँच की शीट की क्या भूमिका है?

- 20.** सौर सेल के तीन लाभ लिखिए।
- 21.** जैवमात्रा क्या है? जैवमात्रा से जैवगैस प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है?
- 22.** पवन से ऊर्जा प्राप्त करने की क्या सीमाएँ हैं?

दीर्घउत्तरीय प्रश्न

- 23.** आजकल नाभिकीय ऊर्जा को किस प्रक्रिया द्वारा काम में लाया जाता है? संक्षेप में स्पष्ट कीजिए।
- 24.** सौर ऊर्जा को कैसे काम में लाया जा सकता है? सौर ऊर्जा के उपयोग की कोई दो सीमाएँ लिखिए। इन सीमाओं पर कैसे पार पाया जा सकता है?
- 25.** ऊर्जा के परंपरागत एवं गैर-परंपरागत स्रोतों की सूची बनाइए। किसी एक गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत को काम में लाने का संक्षिप्त विवरण लिखिए।
- 26.** ऊर्जा के गैर-परंपरागत स्रोतों की ऊर्जा को काम में लाने की आवश्यकता क्यों है? महासागरों से विभिन्न उपायों द्वारा कैसे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है?
- 27.** जीवाश्मी ईंधन को उपयोग करने के पर्यावरणीय प्रभाव लिखिए। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों सहित विभिन्न ऊर्जा स्रोतों के कारण उत्पन्न प्रदूषण को निम्नतम करने के उपाय सुझाइए।
- 28.** विभिन्न ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा को सूखे से व्युत्पन्न ऊर्जा माना जाता है। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए।
- 29.** जैवमात्रा क्या है? नामांकित व्यवस्था आरेख की सहायता से किसी बायोगैस (जैवगैस) संयंत्र का सिद्धांत एवं कार्यविधि स्पष्ट कीजिए।